

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 15—नवम्बर 21, 2014 (कार्तिक 24, 1936)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 15—NOVEMBER 21, 2014 (KARTIKA 24, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 7 अक्टूबर 2014

सं. डीपीपर्स.1/2014/93/3/15/2009----सुश्री विद्या कुलकर्णी, भा.पु. सेवा (टीएन: 1998), पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.अ.ब्यूरो की सेवाएं केंद्र में उनके अनुमोदित कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप प्रत्यावर्तन पर दिनांक 19.06.2014 के अपराहन से तमिलनाडु सरकार को वापस सौंपी जाती हैं ।

दीपिका सूरी
उप निदेशक (कार्मिक)

सं. डीपीपर्स.1/2014/0092 /3/57/2009----श्रीमती बिनीता ठाकुर, भा.पु.सेवा (आरजे : 1996) की नियुक्ति मानव संसाधन विकास विभाग में मानव संसाधन विकास की माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में होने के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 19.09.2014 के पूर्वाह्न से पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली के पद से कार्यमुक्त किया जाता है।

दीपिका सूरी
उप निदेशक (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

सं.-ओ.दो.3992/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० चेलुवेरी नरेश, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में चिकित्साधिकारी/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 13.10.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं.-ओ.दो.3991/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी डॉ० शालिनी सोरेंग, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- + ग्रेड वेतन रुपये 5,400/- में दंत चिकित्सक/सहायक कमाण्डेंट के पद पर बल की नफरी में दिनांक 13.10.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं.-ओ.दो.3993/2014-कार्मिक(चि0अ0)—राष्ट्रपति जी, डॉ० योजना यादव, को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतनमान रुपये 15,600-39,100/- के वेतनमान (साथ में रु० 6,600/-ग्रेड वेतन) में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी(गैनेकोलजिस्ट)/ (उप कमाण्डेंट) के पद पर बल की नफरी में दिनांक 16.10.2014(पूर्वाह्न) से, अगले आदेश तक अस्थाई तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एम सी पॅवार
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

सं.ए-19024/8/97-प्रशा.1-सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर श्री डी.के. मजूमदार, मुख्य रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, मुंबई दिनांक 30.9.2014 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

उरवशी कुमार
अवर सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

सं. पीडी93//अधि/स्थापना/1 & II/OPA/138218/13820/138223----निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कार्यभार त्यागने का	पदत्याग करने की तारीख	घटना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री पी एन पाठक	वै. अ/जी	25/07/2014(अप)	मृत्यु
2.	श्री मनोज कुमार जोशी	वै. अ/डी	15/09/2014(अप)	त्यागपत्र
3.	श्री वही आय धीवर	वै. अ/एफ	30/09/2014(अप)	अधिवर्षिता
4	श्री के ए जाधव	वै. अ/ई	30/09/2014(अप)	अधिवर्षिता
5	डॉ जयंत आर बांदेकर	वै. अ/एच+	30/09/2014(अप)	अधिवर्षिता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	श्री सुनील नरहर सहस्त्रबुद्धे	वै. अ/एच	30/09/2014(अप)	अधिवर्षिता
7	श्री एस अनंतरामन	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	30/09/2014(अप)	अधिवर्षिता

हृषिकेश मिश्र
नियंत्रक

मुंबई-85, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

सं. पीडी/4(4)/2014-भर्ती- / 2014 / 12181—अध्यक्ष, पी. एवं सी.डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्रीमती उषा राजन, नीजि (गैर-सचिवलयीन), को दिनांक 01.10.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ नीजि सचिव के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

दिनांक 28 अक्टूबर 2014

सं. पीडी/6(5)/2013-भर्ती-III/2014/12454—अध्यक्ष पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री सुनील डी. म्हात्रे सहायक, भा.प.अ. केंद्र मुंबई को दिनांक 25.09.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक (रु. 9,300—34,800/-) के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन 4,800/- में एन.आर.बी. भा.प.अ. केंद्र तारापुर में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

संदर्भ:पीडी/6(5)/2013-भर्ती-III/2014/12474—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री प्रविण अशोक राऊत, आशुलिपिक श्रेणी - II, भा.प.अ. केंद्र, मुंबई को दिनांक 23.09.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9300-34800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4800/- में इस अनुसंधान केंद्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

संदर्भ:पीडी/6(2)/2013-भर्ती-III/2014/12486—अध्यक्ष, पी. एवं सी. डी., भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, श्री कडियम नाग सुब्रह्मण्यम, सहायक लेखाकार, भारी पानी संयंत्र, मणुगूरु को दिनांक 10.10.2014 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300—34,800 के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केंद्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

मुत्तुलक्ष्मी जे.
सहायक कार्मिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई - 400 001, दिनांक 17 अक्टूबर 2014

सं. 21/11(2)/2012-सीसीएस/13003—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग की इकाईयों में कार्यरत लेखा अधिकारी (पीबी-2 रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दी गई तारीख से आगामी आदेश होने तक प्रभावी रूप में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पीबी-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु.5,400/-) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	इकाई	वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति की तारीख
1.	श्रीमती एस. रंगनायकी	आईजीकार, कलपाक्कम	01.04.2014
2.	श्री वी. तिरुमला राव	एनएफसी, हैदराबाद	01.08.2013
3.	श्री एस. रवीन्द्रन	बीएआरसी फैसिलिटिज, कलपाक्कम	01.05.2013

क्र.सं.	नाम	इकाई	वरिष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में पदोन्नति की तारीख
4.	श्री एस. एस. जानी	वीईसीसी, कोलकाता	01.07.2013
5.	श्रीमती लक्ष्मी रामनाथ	पञ्चवि सचिवालय, मुंबई	01.05.2013
6.	श्री एम. नागेश्वर राव	एएमडी, हैदराबाद	01.07.2013
7.	श्रीमती जीना फिलीप्स	एनएफसी, हैदराबाद	01.10.2013
8.	श्री पी. डी. शृंगी	बीएआरसी, मुंबई	01.01.2014
9.	श्रीमती जयलक्ष्मी राठौड	एचडब्ल्यूबी, मुंबई	01.02.2014

ए. सुकुमारन
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई-400094, दिनांक 29 सितम्बर 2014

सं. ईईआरबी/प्रशा1/77—राष्ट्रपति महोदय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (ईईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शायी तारीखों से अगले आदेश दिये जाने तक इसी परिषद में पदोन्नति के साथ अगली उच्चश्रेणी पर नियुक्त करते हैं:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का ग्रेड	वेतन बैंड	दिये गये दिनांक से प्रभावी
1.	श्री श्याम व्यास, वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी-4 : ₹ 37400-67000 + ग्रेड वेतन ₹ 8700/-	01/07/2014
2.	श्री संतोष कुमार प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी-4 : ₹ 37400-67000 + ग्रेड वेतन ₹ 8700/-	01/07/2014
3.	डॉ घनश्याम साहनी वैज्ञानिक अधिकारी/ ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी-4 : ₹ 37400-67000 + ग्रेड वेतन ₹ 8700/-	07/07/2014
4.	श्री सौरभ आचार्य वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/एफ	पीबी-4 : ₹ 37400-67000 + ग्रेड वेतन ₹ 8700/-	01/07/2014

संगीता आर नाखवा
प्रशासनिक अधिकारी-III

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड

नवी मुंबई-400703, दिनांक 25 अक्टूबर 2014

सं. ब्रिट/9/17(3)/जुलाई/2014/102—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'एफ' के वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. रमानुजम शेषाद्री को दिनांक 01 जुलाई 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 37,400—67,000/— के वेतन बैंड में रु. 8,900/— ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'जी', के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ब्रिट/9/17(3)/जुलाई/2014/103—राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के ग्रेड 'ई' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं को दिनांक 01 जुलाई 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इसी एकक में रुपए 37,400—67,000/— के वेतन बैंड में रुपए 8,700/— ग्रेड वेतन सहित, वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड 'एफ' के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं.	नाम
1.	श्री चंद्रशेखर अंबादास खेरोडकर
2.	श्रीमती गीता राजगोपालन
3.	डॉ. (श्रीमती) किरण सुनिल मेहरा
4.	डॉ. (श्रीमती) शुभांगी मनोहर मीरापुरकर
5.	डॉ. (श्रीमती) वृन्दा प्रशांत चौथकांतीवर
6.	श्रीमती चंदा अर्जुन
7.	श्री जेकब सेबास्टियन
8.	डॉ. (श्रीमती) योजना सिंह
9.	डॉ. अनूपम माथूर
10.	श्री राजेश कुमार

पी. रामकृष्णन
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्रय और भंडार निदेशालय

मुंबई—400094, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

सं. क्रभनि/07019/भर्ती/3471—निदेशक, क्रय और भंडार निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, श्री ए जयरामन, वरिष्ठ भंडारी, वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,200/—, केन्द्रीय भंडार एकक, क्रय और भंडार निदेशालय, मुंबई को सहायक भंडार अधिकारी के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) रु. 9,300—34,800/— + ग्रेड वेतन रु. 4,800/—, में उसी एकक में दिनांक 04 सितम्बर, 2014 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस. वाई. कांबले
प्रशासन अधिकारी—III

भारी पानी बोर्ड

मुंबई—400094, दिनांक 16 अक्टूबर 2014

सं. भापाबो/भर्ती/4(15)/खण्ड-V/2013/4918—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी संयंत्र (कोटा/बड़ौदा/तालचेर/मणुगुरु) के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर एवं तारीख के पूर्वाह्न से उसी संयंत्र में आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन भी नीचे दिया गया है :—

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुति	प्रभाग/इकाई	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्रीधर एस. गोंड	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंको	01.07.2013
2.	मदन लाल	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंको	01.07.2013
3.	मोहित कुमार	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंको	01.07.2013
4.	जुनैद निसार	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंको	01.07.2013
5.	दिलीप मोहनलाल जायसवाल	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासं, बड़ौदा	01.07.2013

क्र. सं.	नाम	वर्तमान ग्रेड	समिति की संस्तुति	प्रभाग/इकाई	पदोन्नत ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
6.	तपस रंजन साहू	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासं, बड़ौदा	01.07.2013
7.	आशिष कुमार रथ	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	तालचेर	01.07.2013
8.	आशिष मिश्र	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	तालचेर	01.07.2013
9.	डॉ. (श्रीमती) जयंती श्रीवास्तव	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
10.	वाई. विजया कुमार	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
11.	सी. प्रकाश	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
12.	मालिनीडि रामांजनेयुलु	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
13.	एन. रवीन्द्र बाबू	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
14.	प्रफुल्ल चन्द्र साहू	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
15.	बी. अनिल कुमार	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
16.	गौतम चिंतलपाटि	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
17.	सी. सेल्वराज	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
18.	चि. कोटेश्वरा राव	वैज्ञा.अधिकारी/डी	वैज्ञा.अधिकारी/ई	भापासंम	01.07.2013
19.	डॉ. रामा कृष्णा राबुला	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
20.	दीपक कुमार नासकर	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
21.	लक्ष्मण कुमार मुलागादा	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
22.	पूरानी रवीचन्द्रन	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
23.	मुरलीधर चिट्टिल्ला	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
24.	धीरेन्द्र ठाकुर	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
25.	रोहित कुमार	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	15.07.2013
26.	चैतन्या अल्लम	वैज्ञा.अधिकारी/सी	वैज्ञा.अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
27.	आर. ब्रम्हं	तकनीकी अधिकारी/सी	तकनीकी वैज्ञा. अधिकारी/डी	भापासंम	01.07.2013
28.	एन. एलुमलाई	वैज्ञा.अधिकारी/एसबी	वैज्ञा.अधिकारी/सी	भापासंम	01.07.2013
29.	बी. शिव शंकर प्रसाद	वैज्ञा.अधिकारी/एसबी	वैज्ञा.अधिकारी/सी	भापासंम	01.07.2013
30.	ए. वी. राजेश्वर राव	तकनीकी अधिकारी/बी	तकनीकी अधिकारी/सी	भापासंम	01.07.2013

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने उल्लिखित निचले पद का पदभार सामने दर्शाई गई तारीख से छोड़ दिया है।

वेतन बैंड :—

पद	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
वैज्ञानिक अधिकारी/ई	पीबी(3) 15,600—39,100 /—	7,600 /—
वैज्ञानिक अधिकारी/डी, तकनीकी अधिकारी/डी	पीबी(3) 15,600—39,100 /—	6,600 /—
वैज्ञानिक अधिकारी/सी, तकनीकी अधिकारी/सी	पीबी(3) 15,600—39,100 /—	5,400 /—

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 20 अक्टूबर 2014

सं. पखनि-4/1/2012-भर्ती/1676—राष्ट्रपति महोदय परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 01 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक अधिकारी "सी" के रूप में अस्थायी हैसियत में अगले आदेशों तक वेतन बैंड पी.बी.-3 रु. 15,600—39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर नियुक्त करते हैं :—

क्रमांक	टीएसओ के नाम सर्वश्री
1.	सुनील प्रसाद सिंह
2.	प्रदीप कुमार उपाध्याय
3.	थाडका महेश
4.	मुकेश कुमार सिंह
5.	एददासी लिंगामुर्ती
6.	प्रीतम कर्मकार
7.	दीपांकर शर्मा
8.	मोहम्मद मारुफ रहमान
9.	निथिल इ
10.	मनाश ज्योति गोहैन
11.	शशांक शेखर मिश्रा
12.	प्रकाश मुखर्जी
13.	अंकित कुमार गुप्ता
14.	मोहित मत्ता

ए. एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

सं. पखनि-16/1/95-भर्ती/Vol. IV/1723—निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग श्री रजनीश बी. जोशी, सहायक लेखाकार (पीबी-2: रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), क्रय एवं भंडार निदेशालय, मुंबई, को अस्थाई हैसियत में दिनांक 29.09.2014 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, शिलोंग में स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी (पीबी-2: रु. 9,300—34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में

जयपुर-302001, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

सं. आर.ओ.सी./जेपीआर/560/5/1201—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्न कम्पनियों के नाम, कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी गई हैं :—

क्र.स.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
01	038120	श्री पार्श्व पदमावती एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
02	038230	गोल्डन माईलस्टोन बिल्डकोन प्राईवेट लिमिटेड
03	028132	पीपुल हार्ड-टेक बिल्डफार्मस प्राईवेट लिमिटेड

क्र.स.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
04	008807	मधुबन गार्डन्स लिमिटेड
05	042865	ग्वाला केटलफीड इण्डस्ट्रिज प्राईवेट लिमिटेड
06	033390	स्पीड ई—सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
07	040623	खण्डाल रियलएस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
08	043253	एग्रीड इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
09	045603	इण्डियन योगा लाईफ प्राईवेट लिमिटेड
10	039161	एम्बिशन ट्रेडमार्ट प्राईवेट लिमिटेड
11	023829	आविष्कार ट्रेडकॉम प्राईवेट लिमिटेड
12	032055	रेड वेली हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
13	018461	ब्लुजम होलीडेज स्टेटेगिस लिमिटेड
14	030105	अभय ट्रेडमार्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15	039518	फेथ विंग्स एजुकेशनस प्राईवेट लिमिटेड
16	042148	स्वीचलेब्स टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड
17	041579	मा भगवती मल्टीटेड कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
18	040092	एवरग्रीन ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
19	039665	रॉयल विजन कॉरपोरेशन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
20	037144	लिटलसॉफ्ट वेब टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड
21	028012	कालूराम प्रहलादराय प्रोसेजर्स प्राईवेट लिमिटेड
22	037350	लक्ष्मी रियलडवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
23	020861	श्री भागीरथ स्टोन्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड
24	042955	एसजीके कॉलोनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
25	035221	अलजोन बॉयोसाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
26	029998	चकरा काफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27	004401	त्रिशुल टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
28	034308	रुकमणी बिल्डएस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
29	043317	शुभम बिल्डइंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
30	039086	दीवान ग्रीन अर्थ प्राईवेट लिमिटेड
31	038548	हाई—टेक प्लस सीमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
32	028289	सीतापुरा ट्रेडकॉम प्राईवेट लिमिटेड
33	041515	वीबीएम ऑनलाईन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
34	011201	अंश बिल्डस्क्यूवायर प्राईवेट लिमिटेड
35	041292	केडब्रिज सेमीकन्डक्टर प्राईवेट लिमिटेड
36	037246	पाकिजा सॉफ्ट सोल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
37	028404	राजगार्डिया बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
38	020882	शशि शेखर मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड
39	019548	राइज बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
40	022319	बी एल एण्ड सन्स कोस्मो ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
41	033724	श्री रिषभ मीनकेम प्राईवेट लिमिटेड
42	032090	ईशान डेको आर्ट प्राईवेट लिमिटेड
43	040796	डंगायच इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
44	045303	रडियन्ट अकादमी प्राईवेट लिमिटेड
45	026774	साईनिंग फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
46	027820	जी नाईन ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
47	036194	एसेन्डो पोर्टफोलियो कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
48	020579	श्री राम बालाजी कॉलोनाइजर डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
49	041984	हाई विजन बिल्डएस्टेट प्राईवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
50	023861	रिगाता पैकर्स एण्ड मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
51	033647	लीन वेब सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
52	031509	हाईलैण्ड पीपर स्प्रिटस एण्ड वाईन प्राईवेट लिमिटेड
53	036060	डीके हैल्थएड प्राईवेट लिमिटेड
54	029427	सत्यम गुरु फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
55	037136	श्री रिषभदेव मीनकेम प्राईवेट लिमिटेड

इमरान ए. सिद्दिकी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
एवं सहायक शासकीय समापक
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू—180012, दिनांक 22 अक्टूबर 2014

सं. आरओसी/जम्मू/560(5)/एफ.टी.ई.—2014—15—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गये हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने के तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :—

क्र.सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	यु52100जेके2009पीटीसी003020	मैसज सनलाइट सिनक्रोनाइज़ नैटवर्क मारकीटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	यु74140जेके2007पीटीसी002758	मैसर्ज एलपाइन कारपोरेट सोलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	यु72900जेके2009पीटीसी003081	मैसर्ज एसएचएम इन्फोटेक कंसलटैन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
4.	यु92113जेके2007पीटीसी002839	मैसर्ज विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	यु36900जेके2012पीटीसी003710	मैसर्ज कश्मीर हैंडलूम एण्ड क्राफ्ट इम्पोरियम प्राईवेट लिमिटेड
6.	यु17220जेके2008पीटीसी002862	मैसर्ज अकबर निट्रस एण्ड वोवन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	यु51311जेके2005पीटीसी002573	मैसर्ज माडर्न कश्मीर सिल्क टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	यु22300जेके2008पीटीसी002919	मैसर्ज कश्मीर मीडिया नैटवर्क एण्ड टेक्नोलॉजीस प्राईवेट लिमिटेड
9.	यु22220जेके2009पीटीसी002965	मैसर्ज शागुन एडीएस प्राईवेट लिमिटेड
10.	यु85191जेके2009पीटीसी002984	मैसर्ज बसंत्र संजीवनी युक्तिकल्प आर्युवेदिक प्राईवेट लिमिटेड
11.	यु55101जेके2013पीटीसी003860	मैसर्ज पैराडाइसा कैफ़े प्राईवेट लिमिटेड
12.	यु74900जेके2010पीटीसी003233	मैसर्ज पिताब्रा मर्कनडाइसिंग सलुशन्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	यु74900जेके2011पीटीसी003373	मैसर्ज राईस आउटसोरसिंग प्राईवेट लिमिटेड
14.	यु45200जेके2009पीटीसी003023	मैसर्ज टेनट्रे कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	यु72200जेके2011पीटीसी003288	मैसर्ज ऐलिमैन्ट आइटी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
16.	यु17120जेके2012पीटीसी003459	मैसर्ज वर्दी हाउस गारमैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू और कश्मीर

लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी. के मामले में

कोलकाता, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

सं. क.र./प.व./एल.एल.पी.-75/2014—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 4 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विधित्त कर दी गई हैं :—

क्र.सं.	एलएलपीआईएल	एलएलपी का नाम
1.	AAB-2044	फर्वर एनर्जि एल.एल.पी.
2.	AAA-5857	मित्रा प्रॉपर्टीज सर्च एल.एल.पी.
3.	AAA-2114	फेमर टेक्नोलोजीस एल.एल.पी.
4.	AAA-2422	मोड बैग कंसल्टिंग एल.एल.पी.

प्रणय चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स स्टार माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

पणजी-403001, दिनांक 27 अक्टूबर 2014

सं. 6752—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स स्टार माइनिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

सुधीर लीलाधर फाये
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 17th October 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Shri Suresh Kumar Verma, Branch Officer has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of September 30, 2014 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Deputy Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 27th October 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri V.S.R. Avadhani, a Member of Andhra Pradesh Higher Judicial Service, presently working as Registrar, on deputation basis as Secretary General [Officer on Special Duty] with effect from the forenoon of 26th October, 2014, until further orders, against a newly created post.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

The 28th October 2014

No. F. 20/2014-SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Ashok Kumar Sharma, Deputy Registrar (Protocol), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur as Additional Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 27th October, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

No. F. 20/2014-SCA(1)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint Dr. K. Arul, District Judge of Puducherry Judicial Service as Registrar, on deputation basis, initially for a period of one year with effect from the forenoon of 15th October, 2014.

M. K. HANJURA
Registrar (Admn.I)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 7th October 2014

No. DP/Pers.I/2014/93/3/15/2009—Services of Ms. Vidya Kulkarni, IPS (TN:1998), Deputy Inspector General of Police, CBI, New Delhi have been placed back at the disposal of Government of Tamilnadu with effect from the afternoon of 19.06.2014 on repatriation, consequent upon completion of her approved tenure at centre.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers)

No. DP/Pers.I/2014/3347/03/57/2009—Ms. Binita Thakur, IPS (RJ:1996) is relieved of her duties from the post of Deputy Inspector General of Police, CBI, New Delhi with effect from the forenoon of 19.09.2014 consequent upon her appointment as Private Secretary to Hon'ble Minister of Human Resource Development in the Department of Human Resource Development.

DEEPIKA SURI
Deputy Director (Pers)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi – 110003, the 21st October 2014

No. O.II-3992/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Chiluveri Naresh, selected candidate of MOSB – 2013, as Medical Officer/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600—39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 13-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M C PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-3991/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Shalini Soreng, selected candidate of MOSB – 2013, as Dental Surgeon/Assistant Commandant in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600—39,100 plus Grade pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 13-10-2014 (FN), until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M C PANWAR
DIG (Pers)

No. O.II-3991/2014-Pers(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Yojana Yadav selected candidate of MOSB–2013, as Specialist Medical Officer (Gynecology)/(Deputy Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600—39,100 plus Grade pay Rs. 6,600/- in temporary capacity wef 16.10.2014 (FN) until further orders, against the overall strength of Central Reserve Police Force.

M C PANWAR
DIG (Pers)

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Faridabad, the 22nd October 2014

No. A-19024/8/97-A.I—On attaining the age of superannuation, Shri D. K. Mazumdar, Chief Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Mumbai has retired from Government service with effect from 30th September, 2014 (afternoon).

URAVASHEE KUMAR
Under Secretary

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai – 85, the 21st August 2014

No. 93/Notification./I&II/OPA/138218/138220/138223—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name of the officer	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
1	Shri P. N. Pathak	SO/G	25/07/2014	Death
2	Shri Manoj Kumar Joshi	SO/D	15/09/2014(AN)	Resignation

1	2	3	4	5
3	Shri V. I. Dhiwar	SO/F	30/09/2014(AN)	Superannuation
4	Shri K. A. Jadhav	SO/E	30/09/2014(AN)	Superannuation
5	Dr. Jayant R. Bandekar	SO/H+	30/09/2014(AN)	Superannuation
6	Shri Sunil Narahar Sahasrabudhe	SO/H	30/09/2014(AN)	Superannuation
7	Shri S. Anantharaman	OS	30/09/2014(AN)	Superannuation

H. MISHRA
Controller

Mumbai – 85, the 21st October 2014

No. PD/4(4)/2014-R-III/2014/12181—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Usha Rajan, Private Secretary (Non-Secretariat) to the post of Senior Private Secretary on regular basis with effect from the forenoon of 01.10.2014 in the Pay Band-2 of ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,800/- in this Research Centre until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

The 28th October 2014

No. PD/6(5)/2013-R-III/2014/12454—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Sunil D. Mhatre, Assistant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,800/- in BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 25.09.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/6(5)/2013-R-III/2014/12474—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Pravin Ashok Raut, Stenographer Grade-II, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 23.09.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

No. PD/6(2)/2013-R-III/2014/12486—Head, P&CD, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri Kadiyam Naga Subrahmanyam, Assistant Accountant, Heavy Water Plant, Manuguru to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 10.10.2014 on regular basis until further orders.

MUTHULAKSHMI J.
Assistant Personnel Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai - 400 001, the 17th October 2014

No. 21/11(2)/2012-CCS/13003—The President is pleased to appoint the following officers in the grade of Accounts Officer (PB-2 ₹ 9,300—34,800/- with GP ₹ 5,400/-) to the grade of Senior Accounts Officer (PB-3 ₹ 15,600—

39,100/- with GP ₹ 5400/-), in the units of the Department of Atomic Energy w.e.f. the dates given alongside until further orders :—

Sl. No	Name	Unit	Date of promotion as Senior Accounts Officer
1.	Smt. S. Renganayaki	IGCAR, Kalpakkam	01.04.2014
2.	Shri V. Tirumala Rao	NFC, Hyderabad	01.08.2013
3.	Shri S. Ravindran	BARC Facilities, Kalpakkam	01.05.2013
4.	Shri S. S. Jani	VECC, Kolkata	01.07.2013
5.	Smt. Laxmi Ramnath	DAE Sectt., Mumbai	01.05.2013
6.	Shri M. Nageshwara Rao	AMD, Hyderabad	01.07.2013
7.	Smt. Zeena Philips	NFC, Hyderabad	01.10.2013
8.	Shri P. D. Shringi	BARC, Mumbai	01.01.2014
9.	Smt. Jayalakshmi Rathod	HWB, Mumbai	01.02.2014

A. SUKUMARAN
Under Secretary

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400 094, the 30th September 2014

No. AERB/Adm/I/77/3257—The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) on promotion to the next higher grade w.e.f the dates shown against each in the same Board until further orders :—

SL No	Name of the Officer & Designation	Grade of Promotion	Pay Band (₹)	w.e.f
1	Shri Shyam Vyas, Scientific Officer (E)	Scientific Officer (F)	(PB : 4 ₹ 37400-67000 + Grade Pay ₹ 8700/-)	01/07/2014
2	Shri Santosh Kumar Pradhan Scientific Officer/E	Scientific Officer (F)	(PB : 4 ₹ 37400-67000 + Grade Pay ₹ 8700/-)	01/07/2014
3	Dr. Ghanshyam Sahani Scientific Officer/E	Scientific Officer (F)	(PB : 4 ₹ 37400-67000 + Grade Pay ₹ 8700/-)	07/07/2014
4	Shri Sourav Acharya Scientific Officer/E	Scientific Officer (F)	(PB : 4 ₹ 37400-67000 + Grade Pay ₹ 8700/-)	01/07/2014

SANGEETA R. NAKHWA
Administrative Officer-III

BOARD OF RADIATION & ISOTOPE TECHNOLOGY

Navi Mumbai-400703, the 25th October 2014

No. BRIT/9/17(3)/2014/102—The President is pleased to appoint Dr. Ramanujam Seshadri, Scientific Officers Grade 'F' of Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific Officers 'G' in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,900/- in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2014 until further orders.

P. RAMAKRISHNAN
Chief Administrative Officer

No. BRIT/9/17(3)/2014/103—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers Grade 'E' of the Board of Radiation & Isotope Technology of the Department of Atomic Energy as Scientific

Officers/Engineers Grade 'F' in the pay band of Rs. 37,400—67,000/- and Grade Pay Rs. 8,700/- in the same Unit with effect from the forenoon of July 01, 2014 until further orders :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Chandrasekhar Ambadas Kherodkar
2.	Smt. Geetha Rajagopalan
3.	Dr. (Smt.) Kiran Sunil Mehra
4.	Dr. (Smt.) Shubhangi Manohar Mirapurkar
5.	Dr. (Smt.) Vrinda Prashant Chouthkantivar
6.	Smt. Chanda Arjun
7.	Shri Jacob Sebastian
8.	Dr. (Smt.) Yojana Singh
9.	Dr. Anupam Mathur
10.	Shri Rajesh Kumar

P. RAMAKRISHNAN
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Mumbai-400 094, the 14th October 2014

No. DPS/07019/Rectt/3471—The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri A. Jayaraman, Sr. Storekeeper (Pay Band (PB-2) ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,200/-), Central Stores Unit, Directorate of Purchase & Stores, Mumbai, as Assistant Stores Officer in the Pay Band (PB-2) ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,800/-, in the same unit, w.e.f the forenoon of 4th September, 2014, until further orders.

S. Y. KAMBLE
Administrative Officer-III

HEAVY WATER BOARD

Mumbai – 94, the 16th October 2014

No. HWB/R/4(15)/Vol-V/2013/4918—The President is pleased to appoint the following Officers of Heavy Water Plants (Kota/Baroda/Talcher/Manuguru) to the post indicated against each with effect from the forenoon of date mentioned against each in the same Plants in a temporary capacity until further orders. The Pay Band and Grade pay of the posts are also indicated below :—

SL. NO.	NAME	PRESENT GRADE	RECOMM- ENDATION OF COMMITTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
1.	SHREEDHARA S. GOND	SO/D	SO/E	HWPK	01.07.2013
2.	MADAN LAL	SO/D	SO/E	HWPK	01.07.2013
3.	MOHIT KUMAR	SO/C	SO/D	HWPK	01.07.2013
4.	JUNAID NISAR	SO/C	SO/D	HWPK	01.07.2013
5.	DILIP MOHANLAL JAYSWAL	SO/C	SO/D	HWP, BARODA	01.07.2013

SL. NO.	NAME	PRESENT GRADE	RECOMM- ENDATION OF COMMITTEE	DIVISION/ UNIT	DATE OF APPOINTMENT TO THE PROMOTED GRADE
6.	TAPAS RANJAN SAHOO	SO/C	SO/D	HWP, BARODA	01.07.2013
7.	ASHISH KUMAR RATH	SO/D	SO/E	TALCHER	01.07.2013
8.	ASHISH MISHRA	SO/C	SO/D	TALCHER	01.07.2013
9.	DR.(SMT.) JAYANTI SHRIVASTAVA	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
10.	Y.VIJAYA KUMAR	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
11.	C.PRAKASH	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
12.	MALINEEDI RAMANJANEYULU	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
13.	N.RAVEENDRA BABU	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
14.	PRAFULLA CHANDRA SAHOO	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
15.	B.ANIL KUMAR	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
16.	GOUTHAM CHINTALAPATI	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
17.	C.SELVARAJ	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
18.	CH.KOTESWARA RAO	SO/D	SO/E	HWPM	01.07.2013
19.	DR. RAVULA RAMA KRISHNA	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
20.	DIPAK KUMAR NASKAR	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
21.	LAXMAN KUMAR MULAGADA	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
22.	POORANI RAVICHANDRAN	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
23.	MURALIDHAR CHITTILLA	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
24.	DHIRANDRA THAKUR	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
25.	ROHIT KUMAR	SO/C	SO/D	HWPM	15.07.2013
26.	CHAITANYA ALLAM	SO/C	SO/D	HWPM	01.07.2013
27.	R.BRAHMAM	TO/C	TO/D	HWPM	01.07.2013
28.	N.ELUMALAI	SO/SB	SO/C	HWPM	01.07.2013
29.	B.SIVA SANKAR PRASAD	SO/SB	SO/C	HWPM	01.07.2013
30.	A.V.RAJESWARA RAO	TO/B	TO/C	HWPM	01.07.2013

The above Officers relinquished charge of the lower posts held by them on the forenoon of date mentioned against each.

Pay Bands :

Post	Pay Band	Grade Pay
Scientific Officer/E	PB(3) 15600-39100	7600
Scientific Officer/D, Technical Officer/D	PB(3) 15600-39100	6600
Scientific Officer/C, Technical Officer/C	PB(3) 15600-39100	5400

K.S. PILLAI
Administrative Officer –III

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500016, the 20th October 2014

No. AMD-1/1/2013-Rectt./1676—The President is pleased to appoint the under mentioned individuals as Scientific Officer “C” in the Pay Band ₹ 15,600—39,100 (PB-3) with Grade Pay of ₹ 5,400/- in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, with effect from the forenoon of August 1, 2014 in a temporary capacity until further orders :—

S.No	Name of TSO S/Shri
1	Sunil Prasad Singh
2	Pradeep Kumar Upadhyay
3	Thadaka Mahesh
4	Mukesh Kumar Singh
5	Edadasi Lingamurty
6	Pritam Karmakar
7	Deepankar Sarma
8	Md.Maruf Rahaman
9	Nithil I
10	Manash Jyoti Gohain
11	Shashank Shekhar Mishra
12	Prakash Mukherjee
13	Ankit Kumar Gupta
14	Mohit Matta

A. S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

No. AMD-16/1/2000-Rectt./1723—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri Rajnish B. Joshi, Assistant Accountant, (PB-2, ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,600/-) DPS, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer (PB-2, ₹ 9,300—34,800 + Grade Pay ₹ 4,800/-), in Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Shillong with effect from the forenoon of 29.09.2014 until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of companies act, 1956 and of the following companies

Jaipur-302001, the 27th October 2014

No.ROC /JPR/560(5)/1201—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies act, 1956 that the name of the following companies have this day been struck off from the register and the said companies are dissolved :—

S. No.	Company No.	Company Name
1	038120	SHRI PARSHV PADMAWATI AGRO PRIVATE LIMITED
2	038230	GOLDEN MILESTONE BUILDCON PRIVATE LIMITED
3	028132	PEOPLE HI-TECH BUILDFARMS PRIVATE LIMITED
4	008807	MADHUBAN GARDENS LIMITED
5	042865	GAWALA CATTLEFEED INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
6	033390	SPEED E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
7	040623	KHANDAL REALESTATES PRIVATE LIMITED
8	043253	AGRYD ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
9	045603	Indian Yoga Life Private Limited
10	039161	AMBITION TRADEMART PRIVATE LIMITED
11	023829	AVISHKAR TRADECOM PRIVATE LIMITED
12	032055	RED VALLEY HOSPITALS PRIVATE LIMITED
13	018461	BLOSSOM HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
14	030105	ABHAY TRADEMART PRIVATE LIMITED
15	039518	FAITH WINGS EDUCATIONS PRIVATE LIMITED
16	042148	Switchlabs Techno Private Limited
17	041579	MAA BHAGWATI MULTITRADE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
18	040092	EVERGREEN BRICKS PRIVATE LIMITED
19	039665	ROYAL VISION CORPORATION INDIA PRIVATE LIMITED
20	037144	LITTLESOFT WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
21	028012	KALURAM PRAHLADRAI PROCESSORS PRIVATE LIMITED
22	037350	LAXMI REALDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
23	020861	SHREE BHAGIRATH STONES AND GRANITES PRIVATE LIMITED
24	042955	SGK COLONIZERS PRIVATE LIMITED
25	035221	ALZEON BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED
26	029998	CHAKRA CRAFTS PRIVATE LIMITED
27	004401	TRISHUL TEXTILE MILLS PRIVATE LIMITED
28	034308	RUKMANI BUILDESTATE PRIVATE LIMITED
29	043317	SHUBHAM BUILDENGINEERS PRIVATE LIMITED
30	039086	DEEWAN GREEN EARTH PRIVATE LIMITED
31	038548	HI-TECH PLUS CEMENTS PRIVATE LIMITED

S. No.	Company No.	Company Name
32	028289	SITAPURA TRADECOM PRIVATE LIMITED
33	041515	VBM ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
34	011201	ANSH BUILDSQUARE PRIVATE LIMITED
35	041292	CADBRIDGE SEMICONDUCTOR PRIVATE LIMITED
36	037246	PAKIZA SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
37	028404	RAJGARDIA BUILDHOME PRIVATE LIMITED
38	020882	SHASHI SHEKHAR MARBLES PRIVATE LIMITED
39	019548	RISE BUILDHOME PRIVATE LIMITED
40	022319	B L AND SONS COSMO TRADE PRIVATE LIMITED
41	033724	SHREE RISHABH MINCHEM PRIVATE LIMITED
42	032090	Ishaan Deco Art PRIVATE LIMITED
43	040796	DANGAYACH ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
44	045303	Radiant Academy Private Limited
45	026774	SHINING FUTURE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
46	027820	G NINE TRADELINK PRIVATE LIMITED
47	036194	ASCENDO PORTFOLIO CONSULTANT PRIVATE LIMITED
48	020579	SHRI RAM BALAJI COLONIZER DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
49	041984	HIGH VISION BUILDESTATE PRIVATE LIMITED
50	023861	REEGATA PACKERS AND MOVERS PRIVATE LIMITED
51	033647	Lean Web Services Private Limited
52	031509	Highland Piper Spirits and Wine Private Limited
53	036060	DK HEALTHAID PRIVATE LIMITED
54	029427	SATYAM GURU FOODS PRIVATE LIMITED
55	037136	SHREE RISHABHDEV MINECHEM PRIVATE LIMITED

IMRAN A. SIDDIQUI
Asstt. Registrar of Companies
-cum- Asstt. Official Liquidator
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jammu-180012, the 22nd October 2014

No. Notice u/s. 560(5)/FTE-2014-15 –Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies At, 1956, that the name of following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1.	U52100JK2009PTC003020	M/s Sunlight Synchronise Network Marketing Private Limited
2.	U74140JK2007PTC002758	M/s Alpine Corporate Solutions Private Limited
3.	U72900JK2009PTC 003081	M/s SHM Infotech Consultancy Services Private Limited
4.	U92113JK2007PTC002739	M/s Vinod Chopra Productions Private Limited
5.	U36900JK2012PTC003710	M/s Kashmir Handloom And Craft Emporium Private Limited
6.	U17220JK2008PTC 002862	M/s Akbar Knits And Wovens Private Limited
7.	U51311JK2005PTC002573	M/s Modern (Kashmir) Silk Textiles Private Limited

Sl. No.	CIN	Company Name
8.	U22300JK2008PTC002919	M/s Kashmir Media Network And Technologies Private Limited
9.	U22220JK2009PTC002965	M/s Shagun ADS Private Limited
10.	U85191JK2009PTC002984	M/s Sanjeevani Yuktikalp Ayurvedic Company Private Limited
11.	U55101JK2013PTC 003860	M/s Paradiso Cafe Private Limited
12.	U74900JK2010PTC003233	M/s Pitambra Merchandising Solutions Private Limited
13.	U74900JK2011PTC003373	M/s Rise Outsourcing Private Limited
14.	U45200JK2009PTC003023	M/s Tantray Constructions Private Limited
15.	U72200JK2011PTC003288	M/s Element IT Services Private Limited
16.	U17120JK2012PTC003459	M/s Vardi House Garments Private Limited

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs
Kolkata, the 28th October 2014

No. ROC/WB/LLP-75/2014—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37(3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 4 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved :—

SL NO.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAB-2044	FERVER ENERGY LLP
2	AAA-5857	MITRA PROPERTIES SEARCH LLP
3	AAA-2114	FEMUR TECHNOLOGIES LLP
4	AAA-2422	MODE BEIGE CONSULTING LLP

PRANAY CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s STAR MINING PRIVATE LIMITED

Panaji-403001, the 27th October 2014

No. 6752—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of STAR MINING PRIVATE LIMITED has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SUDHIR LILADHAR PHAYE
Assistant Registrar of Companies
Goa, Daman and Diu

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in